



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 1982/चैत्र 30, 1904

No. 124]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 1982/CHAITRA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1982

सां०कां०वि० 325(अ) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, अर्थात्:—

- (1) संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—इन नियमों का नाम नागालैंड (संयवहार और नर्मपूर्ण) नियम, 1982 है।
- (2) इनका विस्तार नागालैंड के सम्पूर्ण राज्य पर है।
- (3) यह 15 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) “अधिनियम” से वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है;
- (ख) “प्रकृति” से इन नियमों से संलग्न प्रकृति अभिप्रेत है;
- (ग) “अनुज्ञापिधारी” से अधिनियम के अध्याय 5 के अर्धीन अनुज्ञापिधारी अभिप्रेत है;
- (घ) “अधिकारी” से मुख्य प्राणी संरक्षण या कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इन नियमों के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, अभिप्रेत है;

(ङ) “विनिविष्ट जीवजन्तु” से अधिनियम की अनुसूची I या अनुसूची II के भाग 2 में विनिविष्ट कोई जीवजन्तु अभिप्रेत है और जो—

- (i) पकड़ा गया या रखा गया या बन्दी स्थिति में पालित हो, या
- (ii) प्रकृति में वन्य पाया गया हो।

3. विनिविष्ट जीवजन्तु प्राप्ति को अर्जन करना, प्राप्त करना, नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखना या नर्मपूर्ण को प्रक्रिया में डालने या जीवजन्तु वस्तुएं बनाना प्राप्ति:—

- (1) कोई भी अनुज्ञापिधारी अधिकारी को पूर्व अनुज्ञा के बिना—
 - (i) किसी विनिविष्ट जीवजन्तु या किसी जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या उनसे व्युत्पन्न मांस को अर्जित नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा, अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में नहीं रखेगा, अथवा
 - (ii) नर्मपूर्ण को प्रक्रिया में नहीं डालेगा या जीवजन्तु वस्तु, जिसमें ऐसे जीवजन्तु का कुछ या समस्त भाग अन्तर्विष्ट है, नहीं बनाएगा।
- (2) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन प्रकृति 1 में किया जाएगा।
- (3) उप-नियम (2) के अर्धीन किए गए आवेदन की, प्राप्ति पर अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, अनुज्ञा प्रदान या नार्मजूर कर सकेगा:

परन्तु कोई भी ऐसी अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि अधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि उप-नियम (1) में

निविष्ट विनिविष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या मांस वैद्य रूप से प्रजित किया गया है।

(4) यदि अधिकारी अनुज्ञा देने से इंकार कर देता है तो वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञा के लिए आवेदनक अनुज्ञापतिधारी को ऐसे लेखबद्ध कारणों की एक प्रति भेजी जाएगी।

(5) उप-नियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा प्ररूप 2 में होगी।

4. स्टाफ की रिपोर्ट प्रस्तुत करना :— (1) प्रत्येक अनुज्ञापतिधारी जिसको नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञा अनुवत्त की गई हो, अधिकारी को, जिसमें उक्त अनुज्ञा अनुवत्त की थी, नियम 3 के उपनियम (1) में निविष्ट विनिविष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या मांस के स्टाफ के बारे में, उनके प्रजनन करने, प्राप्त करने या अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखने की तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 3 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिकारी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे स्टाफ पर शनाकत चिह्न लगाने की व्यवस्था कर सकेगा।

5. विनिविष्ट जीवजन्तु आदि का विक्रय :— (1) कोई भी अनुज्ञापतिधारी या कोई विनिविष्ट जीवजन्तु या कोई जीवजन्तु वस्तु ट्राफी या उनसे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी, उस व्यक्ति के सिवाय जो अधिकारी को अनुज्ञा द्वारा अग्र्य करने के लिए प्राधिकृत हो, और जहाँ विक्रय कर दिया गया हो वहाँ श्रेता उस अनुज्ञा को अनुज्ञापति व्यवहारी को अभ्यर्पित कर देगा।

(2) अग्र्य की अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 4 में किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और आवेदन की प्राप्ति के दस दिन की अवधि के भीतर ऐसी अनुज्ञा प्रदान या नामंजूर कर सकेगा।

(4) यदि अधिकारी अनुज्ञा देने से इंकार कर देता है तो वह ऐसे करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे लेखबद्ध कारणों की एक प्रति भेजी जाएगी।

(5) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा प्ररूप 5 में होगी।

(6) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा उसके जारी करने की तारीख से एक मास अवधि तक विधिमान्य होगी।

(7) प्रत्येक अनुज्ञापति व्यवहारी प्रत्येक विक्रय के समय, उपनियम (1) में निविष्ट विनिविष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के बारे में, अग्र्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को एक वाउचर जारी करेगा।

6. प्रत्येक वाउचर में निम्नलिखित विनिष्टियां होंगी अर्थात् :—

(क) वाउचर के जारी करने की तारीख;

(ख) वसूल की गई या की जाने वाली कीमत की रकम;

(ग) वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञापति व्यवहारी का नाम और पता;

(घ) जिस व्यक्ति को वाउचर जारी किया गया है उसका नाम और पता;

(ङ) अग्र्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की अनुज्ञा संख्या;

(च) विनिविष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी उससे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी या विक्रय और संख्या;

(छ) क्या ऐसे विनिविष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/असंसाधित ट्राफी को अन्य प्राणी/संरक्षण/अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 के अधीन घोषित करना अपेक्षित था, और यदि हां, तो क्या वह/वे घोषित कर दिया गया है/दिए गए हैं :—

(ज) वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञापति व्यवहारी के हस्ताक्षर;

(झ) जिस व्यक्ति को वाउचर जारी किया गया है उसके हस्ताक्षर।

6. चर्मपूर्ण या जीवजन्तु वस्तु बनाना :— (1) प्रत्येक अनुज्ञापति चर्मपूर्ण कर्ता या अनुज्ञापति विनिर्माता ट्राफियां या जीवजन्तु वस्तु लौटाते समय उक्त ट्राफी और जीवजन्तु वस्तु के स्वामी को एक वाउचर जारी करेगा।

(2) हर वाउचर में निम्नलिखित विनिष्टियां होंगी :—

(क) वाउचर जारी करने की तारीख;

(ख) वसूल किए गए या किए जाने वाले खर्च;

(ग) वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञापति चर्मपूर्ण कर्ता/विनिर्माता का नाम और पता;

(घ) जिस व्यक्ति को वाउचर जारी किया गया है उसका नाम और पता;

(ङ) ट्राफी/जीवजन्तु वस्तु का विक्रय और संख्या;

(च) क्या असंसाधित ट्राफी/ट्राफी जीवजन्तु वस्तु को अन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 40 या धारा 44 के अधीन घोषित करना अपेक्षित था और यदि हां, तो क्या वह/वे घोषित कर दिया गया है/दिए गए हैं;

(छ) वाउचर जारी करने वाले अनुज्ञापति चर्मपूर्णकर्ता/विनिर्माता के हस्ताक्षर।

7. वाउचरों का रखा जाना :— (1) नियम 5 या नियम 6 में निविष्ट वाउचर तीन प्रतियों में और क्रमांकित होगा।

(2) वाउचर की दूसरी और तीसरी प्रति अनुज्ञापति व्यवहारी, चर्मपूर्णकर्ता या विनिर्माता द्वारा रख ली जाएगी और वाउचर की प्रति नियम 5 के उपनियम (7) या नियम (8) के उपनियम (1) में निविष्ट व्यक्ति को दी जाएगी।

(3) प्रयोग में लाने से पूर्व कौरे वाउचर वाली प्रत्येक पुस्तिका अधिकारी को, उसके अग्रप्रत या मोहर लगाने के लिए, प्रस्तुत की जाएगी।

(4) (क) प्रत्येक अनुज्ञापति व्यवहारी, चर्मपूर्णकर्ता या विनिर्माता अपने द्वारा रखे गए वाउचरों की दूसरी प्रतियां मासिक मुद्रों में, प्रत्येक मास के 7वें दिन के पश्चात् अधिकारी को भजगा।

(ख) विक्रय के समय अनुज्ञापति व्यवहारी को अभ्यर्पित की गई प्रत्येक अनुज्ञा भी पूर्वोक्त दूसरी प्रतियों के साथ संलग्न की जाएगी।

8. विनिविष्ट जीवजन्तु आदि का परिवहन :— (1) कोई भी अनुज्ञापति अधिकारी को पूर्वोक्त अनुज्ञा के सिवाय किसी विनिविष्ट जीवजन्तु, जीवजन्तु वस्तु, ट्राफी या उससे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी को राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन नहीं करेगा।

(2) ऐसी अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 6 में किया जाएगा।

- (3) उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और आवेदन प्राप्ति के सात दिनों की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान या नामंजूर कर सकेगा :-

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि अधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु ट्राफी या प्रसंसाधित ट्राफी के रूप से अज्ञित की गई है।

- (4) यदि अधिकारी अनुज्ञा देने से इंकार करता है तो वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और इस प्रकार लेखबद्ध किए गए कारणों की एक प्रति अनुज्ञा के लिए आवेदक अनुज्ञापतिधारी को भेजी जाएगी।

- (5) उपनियम (3) के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञा प्रारूप 7 में होगी।

9. अपील :- (1) नियम 3 के उपनियम (3), नियम 5 के उपनियम (3) या नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने वाले मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक या अन्य किसी अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन से व्युत्पन्न कोई अनुज्ञापतिधारी या व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में अपील कर सकता है:-

- यदि आदेश मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा दिया गया है तो मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक को, या
- यदि आवेदन मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक द्वारा दिया गया है तो राज्य सरकार को।
- मुख्य वन्य प्राणी, संरक्षक द्वारा उपनियम (1) के खंड (1) के अधीन अपील में पारित आवेदन की वशा में दूसरी अपील राज्य सरकार को की जाएगी।

(3) कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक, जिस आवेदन के विषय की गई हो, उसके आवेदक को सूचित करने की तारीख से 15 दिन के भीतर वह न की गई हो।

परन्तु अपील प्राधिकारी उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् तक कोई अपील ग्रहण कर सकता है जब उसका समाधान हो जाए कि अपील को समय पर सैरार न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतु था।

प्रारूप 1

[नियम 3 का उपनियम (2) देखिए]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु : जीवजन्तु वस्तु आदि को अज्ञित करने, प्राप्त करने, रखने के लिए या भर्तृपूर्ण की प्रक्रिया में रखने या जीवजन्तु वस्तु बनाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

सेवा में,

श्रीमान जी,

मैं ----- निवासी

----- तालुक

----- जिला

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44(4) के अधीन अनुज्ञापति सं०/संख्याएँ -----

का धारक हूँ और निवेदन है कि मुझे/अपने/नियंत्रण/अभिरक्षा/कब्जे में के विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/प्रसंसाधित ट्राफी/उनसे व्युत्पन्न मांस को अज्ञित करने/प्राप्त करने/रखने के लिए और/या भर्तृपूर्ण की प्रक्रिया में रखने।

जीवजन्तु वस्तुएं : जिसमें ऐसे जीवजन्तु का कुछ भाग/समस्त भाग अन्तर्विष्ट है, को बनाने की अनुज्ञा की जाए।

2. मैं ऐसे विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/प्रसंसाधित ट्राफी मांस के संबंध में विनिर्दिष्ट नीचे देता हूँ :-

- (1) जीवजन्तु की प्रजातियाँ।
- (2) संख्या।
- (3) विवरण (नर या मादा सम्मिलित करके यदि संभव हो)।

(4) स्रोत जहाँ से अभिप्राप्त किए जाएँ :-

(क) पता और अनुज्ञापति संख्या, यदि कोई हो

(ख) क्या वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धाराओं 40, 43, या 44 के अधीन घोषणा की गई थी/अनुज्ञा/अनुज्ञाति अभिप्राप्त की गई थी और यदि हाँ तो विनिर्दिष्ट :-

- (5) स्वाधित्व के प्रमाणपत्र की विनिर्दिष्टियाँ।
- (6) शान्ति चिह्न, यदि कोई हो।
- (7) परिसर, जिसमें रखना प्राणित हो।
- (8) प्रयोजन, जिसके लिए अर्जन किया/प्राप्त किया नियंत्रण/अभिरक्षा कब्जे में रखा जाना है।
- (9) यदि भर्तृपूर्ण प्रक्रिया में रखी जानी है या जीवजन्तु वस्तु बनाई जानी है तो :-
 - (क) ट्राफियाँ बनाई जाने वाली वस्तुओं की संख्या।
 - (ख) ऐसी ट्राफियों/वस्तुओं का विवरण।
 - (ग) वे किसको सौदाई जाएँगी।
 - (घ) अधिसंभाव्य तारीख, जिसके भीतर वे सौदाई जाएँगी।

3. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है।

आवेदक के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दी जाए।

प्रारूप 2

[नियम 3 का उपनियम (5) देखिए]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जीवजन्तु वस्तु आदि को अज्ञित करने/प्राप्त करने, नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखने या भर्तृपूर्ण की प्रक्रिया में रखने या जीवजन्तु वस्तु बनाने की अनुज्ञा।

बी-----वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44(4) के अधीन अनुज्ञापति सं०-----

द्वारा को निम्नलिखित विवरण के विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/प्रसंसाधित ट्राफी/उनसे व्युत्पन्न मांस को अज्ञित करने, अपने नियंत्रण/अभिरक्षा या कब्जे में रखने के लिए, या भर्तृपूर्ण की प्रक्रिया में रखने या जीवजन्तु वस्तु, जिसमें ऐसे जीवजन्तु का कुछ भाग/समस्त भाग अन्तर्विष्ट है, को बनाने के लिए एतद्वारा अनुज्ञात किया जाता है:-

- (1) जीवजन्तु की जातियाँ।
- (2) विवरण (नर या मादा सम्मिलित करके यदि आवेदन में दिया गया हो)।
- (3) संख्या।
- (4) स्रोत जहाँ से अभिप्राप्त किया जाए।

- (5) स्रोत की अनुज्ञा/अनुज्ञा संख्या जहां से अभिप्राप्त की जाए।
- (6) स्वामित्व के प्रामाण्यपत्र की विशिष्टता।
- (7) शनावत बिन्दु, यदि कोई हो।
- (8) परिसर जिसमें रखा जाना हो।
- (9) प्रयोजन, जिसके लिए अर्जन करने/प्राप्त करने/नियंत्रण अभिरक्षा/कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञात किया गया है।
- (10) यदि चर्मपूरण की प्रक्रिया में रखने या जीवजन्तु वस्तु बनाने के लिए अनुज्ञात किया गया हो तो :—
 - (क) ट्राफियों या बनाई जाने वाली वस्तुओं की संख्या।
 - (ख) ऐसी ट्राफियों या वस्तुओं का विवरण।
 - (ग) वे किसको लौटाई जानी चाहिए।
 - (घ) अभिसंभाव्य तारीख, जिसके भीतर वे लौटाई जाएंगी।

मेरे द्वारा ————— को ————— तारीख को जारी किया गया।

पदाभिधान के हस्ताक्षर

मुद्रा:

स्थान,

तारीख

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्रथम III

[नियम 4 का उपनियम (1) देखिए]

स्टाक की रिपोर्टें

सेवा में,

1. अनुज्ञापिछारी का पूरा नाम, पता और अनुज्ञा संख्या।
2. रिपोर्ट की तारीख को विनिविष्ट जीवजन्तुओं का धारित स्टॉक।
 - (क) जातियां और नर या मादा।
 - (ख) संख्या।
 - (ग) वयस्क या किशोर।
 - (घ) परिसर जहां रखे गए हैं।
3. रिपोर्ट की तारीख को जीवजन्तु वस्तुओं का धारित स्टॉक :—
 - (क) विवरण, जिसमें वह जीवजन्तु की जाति जिससे वह व्युत्पन्न की गई है सम्मिलित है।
 - (ख) संख्या।
 - (ग) बिम्बा या बजन।
 - (घ) परिसर जहां रखे गए हैं।
4. रिपोर्ट की तारीख को ट्राफियों का धारित स्टॉक :—
 - (क) विवरण जिसमें वह जीवजन्तु की जाति जिससे वह व्युत्पन्न की गई है। सम्मिलित है।
 - (ख) संख्या।
 - (ग) बिम्बा या बजन।
 - (घ) परिसर जहां रखे गए हैं।
5. रिपोर्ट की तारीख को असंसाधित ट्राफियों का धारित स्टॉक।
 - (क) विवरण जिसमें वह जीवजन्तु की जाति जिससे वह व्युत्पन्न की गई है, सम्मिलित है।

(ख) संख्या।

(ग) बम या बजन।

(घ) परिसर जहां रखे गए हैं।

6. टिप्पणियां, यदि कोई हों।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्रथम IV

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

विनिविष्ट जीवजन्तु भावि खरीदने भावि की अनुज्ञा के लिए धावेबन सेवा में,

श्रीमान् जी,

मैं/हम —————

निवासी —————

तालुक —————

जिला —————

निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें अनुज्ञापिछारी से निम्नलिखित विवरण के विनिविष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/उससे उत्पन्न असंसाधित ट्राफी को खरीदने की अनुज्ञा प्रदान की जाए :—

(1) निम्नलिखित की संख्या और विवरण

(क) विनिविष्ट जीवजन्तु,

(ख) जीवजन्तु वस्तु,

(ग) ट्राफी

(घ) असंसाधित ट्राफी।

(2) प्रयोजन जिसके लिए खरीद की जानी है।

3. मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरी/हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है।

धावेबन (को) के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्रथम V

[नियम 5 का उपनियम (5) देखिए]

विनिविष्ट जीवजन्तु भावि खरीदने की अनुज्ञा

————— के सर्व/श्री ————— को

प्रयोजनों के लिए ————— से निम्नलिखित विवरण के विनिविष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी/उससे व्युत्पन्न असंसाधित ट्राफी खरीदने के लिए एतद्वारा अनुज्ञात किया जाता है :—

निम्नलिखित की संख्या और विवरण:

(क) विनिविष्ट जीवजन्तु,

- (क) जीवजन्तु वस्तु,
(ग) ट्राफी,
(घ) प्रसंसाधित ट्राफी।

मेरे द्वारा _____ की _____
तारीख को जारी किया गया।

हस्ताक्षर _____

प्रबन्धक

मुद्रा:

स्थान:

तारीख:

टिप्पण: यह अनुज्ञा जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि तक विधिवान्य रहेगी।

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

अध्याय VI

[नियम 8 का उपनियम (2) देखिए]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि के परिवहन की अनुज्ञा के लिए आवेदन

सेवा में,

मैं _____

श्रीमान जी

मैं _____ निवासी _____

तालुक _____ जिला _____; और अन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972, (1972 का 53) की धारा 44 (4) के अधीन अनुज्ञा अनुमति संख्या _____ धारी निवेदन करता हूँ/हैं कि मुझे निम्नलिखित के परिवहन की अनुज्ञा प्रदान की जाए :-

1. विनिर्दिष्ट जीवजन्तु या जिसमें से जीवजन्तु वस्तु/ट्राफी /प्रसंसाधित ट्राफी व्युत्पन्न होती है, की जातियाँ।
2. संख्या
3. विवरण (यदि संभव हो तों लिग भी)।
4. प्राप्त बिल्ट, यदि कोई हो।
5. उपप्ल का श्रोत और अनुमति/अनुज्ञा सं०।
6. स्वामित्व का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।
7. परिवहन की प्रकृति
8. मार्ग।
9. परिवहन के लिए अपेक्षित अवधि।
10. गंतव्य स्थान।

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इसमें की गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है।

आवेदक के हस्ताक्षर

मुद्रा:

तारीख:

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

अध्याय VII

[नियम 8 का उपनियम (6) देखिए]]

विनिर्दिष्ट जीवजन्तु आदि के परिवहन की अनुज्ञा

मैं _____ अन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 44 (4) के अधीन अनुज्ञा अनुमति सं० _____ धारी की विनिर्दिष्ट जीवजन्तु/जीवजन्तु वस्तु/प्रसंसाधित ट्राफी/विनिर्दिष्ट जीवजन्तु से व्युत्पन्न प्रसंसाधित ट्राफी को _____ से _____ तक नीचे विहित रीति से परिवहन के लिए एतद्वारा अनुज्ञा दी जाती है।

- (1) परिवहन की प्रकृति
- (2) मार्ग।
- (3) परिवहन के लिए अनुज्ञा अवधि।
- (4) टिप्पणियाँ।

मेरे द्वारा _____ की _____
तारीख को जारी किया गया।

हस्ताक्षर ; _____

प्रबन्धक _____

मुद्रा:

स्थान:

तारीख:

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

[सं० 1-21/81-एफ०आर०आई (डब्ल्यू० एल एफ)]

समर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1982

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Nagaland Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1982.

(2) They shall extend to the whole of the state of Nagaland.

(3) They shall come into force on the 15th day of April, 1982.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(b) "Form" means a Form appended to these rules;

(c) "Licensee" means a licensee under Chapter V of the Act;

(d) "Officer" means the Chief Wild Life Warden or any other officer which the State Government may for the purposes of these rules, by notification in the Official Gazette, appoint;

(e) "Specified animal" means any animal which is specified in Schedule I, or Part II of Schedule II, to the Act and which—

(i) captured or kept or bred in captivity, or

(ii) found wild in nature.

3. Acquiring, receiving, or keeping specified animal, etc. in control, custody or possession or put under process of taxidermy or make animal article, etc. (1) no licensee shall—

(i) acquire, receive, keep in his control, custody or possession any specified animal or any animal article trophy uncured trophy or meat derived therefrom, or

(ii) put under a process of taxidermy or make animal article containing part or whole of such animal except with the previous permission of the Officer.

(2) Every application for such permission shall be made in Form I.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the Officer may, after making such inquiry as he may think fit and within a period of fifteen days from the date of receipt of the application, either grant or refuse to grant the permission :

Provided that no such permission shall be granted unless the Officer is satisfied that the specified animal or animal article, trophy, uncured trophy or meat, referred to in sub-rule (1), has been lawfully acquired.

(4) Where the Officer refuses to grant the permission, he shall record the reasons for so doing and a copy of the reasons so recorded shall be communicated to the licensee applying for the permission.

(5) Every permission granted under sub-rule (3) shall be in Form II.

4. Submission of report of stocks.—(1) Every licensee to whom permission has been granted under sub-rule (3) of rule 3 shall submit, to the officer who had granted the said permission a report regarding the stocks of specified animal or animal article, trophy, uncured trophy or meat, referred to in sub-rule (1) of rule 3, in Form III within a period of thirty days of the acquisition, receipt or keeping of the same in his control, custody or possession.

(2) The Officer, after receiving such report may arrange to affix identification marks on such stocks.

5. Sale of specified animal, etc.—(1) No licensed dealer shall sell or offer for sale any specified animal or any animal article, trophy or uncured trophy derived therefrom, except to a person authorised to purchase by a permission granted by the Officer and where the sale is effected the purchaser shall surrender the permission to the licensed dealer.

(2) Every application for permission to purchase shall be made in Form IV.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the Officer may, after making such inquiry as he may think fit and within a period of ten days from the date of receipt of the application, either grant or refuse to grant the permission.

(4) Where the Officer refuses to grant the permission, he shall record the reasons for so doing and a copy of the reasons so recorded shall be communicated to the persons applying for the permission.

(5) Every permission granted under sub-rule (3) shall be in Form V.

(6) Every permission granted under sub-rule (3) shall be valid upto a period of one month from the date of issue of the same.

(7) Every licensed dealer, at the time of cash sale, issue a voucher in relation to the specified animal or animal article, trophy or uncured trophy, referred to in sub-rule (1), to the person authorised to purchase.

(8) Each voucher shall contain the following particulars, namely :—

(a) Date of issue of voucher ;

(b) The amount or price realised or to be realised ;

(c) Name and address of the licensed dealer issuing the voucher ;

(a) Name and address of the person to whom the voucher is issued ;

(e) Permission number of the person authorised to purchase ;

(f) Description of the specified animal/animal article/trophy/uncured trophy derived therefrom and number ;

(g) Whether such specified animal/animal article/trophy/uncured trophy was/were required to be declared under section 44 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and if so, whether it/they has/have been declared ;

(h) Signature of the licensed dealer issuing the voucher ;

(i) Signature of the person to whom the voucher is issued.

6. Taxidermy of making animal article. (1) Every licensed taxidermist or licensed manufacturer shall at the time of returning the trophy or animal article, issue a voucher to the owner of the said trophy or animal article.

(2) Each voucher shall contain the following particulars, namely :—

(a) Date of issue of voucher ;

(b) Charges realised or to be realised ;

(c) Name and address of the licensed taxidermist/manufacturer issuing the voucher ;

(d) Name and address of the person to whom the voucher is issued ;

(e) Description of the trophy/animal article and number ;

(f) Whether uncured trophy/trophy/animal article was required to be declared under section 40 or section 44, of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and if so, whether it/they has/have been declared ;

(g) Signature of the licensed taxidermist/manufacturer issuing the voucher.

7. Maintenance of voucher. (1) The voucher referred to in rule 5 or rule 6 shall be in triplicate and serially numbered.

(2) The duplicate and the triplicate copy of the voucher shall be retained by the licensed dealer, licensed taxidermist or licensed manufacturer and the original copy of the voucher shall be given to the person referred to in sub-rule (7) of rule 5 or sub-rule (1) of rule 6.

(3) Every book containing blank vouchers shall be presented to the Officer for affixing his initials or stamps on such books before it is brought into use.

(4) (a) Every licensed dealer, licensed taxidermist or licensed manufacturer shall send, in monthly batches not later than the seventh day of every month, the duplicate copies of vouchers retained by him, to the Officer.

(b) Every permission surrendered to a licensed dealer at the time of sale shall also be enclosed alongwith the duplicate copies aforesaid.

8. Transport of specified animal, etc.—(1) No licensee shall transport from one place to another with the State any specified animal, animal article, trophy or uncured trophy derived therefrom, except with the previous permission of the Officer.

(2) Every application for such permission shall be made in Form VI.

(3) On receipt of an application made under sub-rule (2), the officer may, after making such inquiry as he may think fit and within a period of seven days from the date of receipt of the application, either grant or refuse to grant the permissions ;

Provided that no such permission shall be granted unless the Officer is satisfied that the specified animal or animal article, trophy or uncured trophy, referred to in sub-rule (1), has been lawfully acquired.

(4) Where the Officer refuses to grant the permission, he shall record the reasons for so doing and a copy of the

reasons so recorded shall be communicated to the licensee applying for the permission.

(5) Every permission granted under sub-rule (3) shall be in Form VII.

9. Appeal.—(1) Any licensee or a person aggrieved by an order made by the Chief Wild Life Warden or any other Officer granted the permission under sub-rule (3) of rule 3, sub-rule (3) of rule 5, or sub-rule (3) of rule 8 may prefer an appeal.—

(i) if the order is made by an officer other than the Chief Wild Life Warden, to the Chief Wild Life Warden, or

(ii) If the order is made by the Chief Wild Life Warden, to the State Government.

(2) In the case of an order passed in appeal by the Chief Wild Life Warden under clause (i) of sub-rule (1), a second appeal shall lie to the State Government.

(3) No appeal shall be entertained unless it is preferred within fifteen days from the date of the communication to the applicant of the order appealed against :

Provided that the appellate authority may admit any appeal after the expiry of the period aforesaid, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preparing the appeal in time.

FORM I

[See sub-rule (2) of rule 3]

Application for permission to acquire, receive, keep specified animal, animal articles etc., or put under process of taxidermy or make animal article.

To

The

Sir,

I, residing at Taluk District and holding licence No. granted under section 44(4) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), request that I may be granted permission to acquire|receive|keep in my control|custody|possession specified animal|animal article|trophy|uncured trophy|meat derived from specified animal and/or put under process of taxidermy/make animal article containing part/whole of such animal.

2. I furnish below the particulars in relation to such specified animal|animal article|trophy|uncured trophy|meat :—

- (1) Species of animal.
- (2) Number.
- (3) Description (including sex, if possible).
- (4) Source from which to be obtained.—
 - (i) Address and Licence Number, if any :
 - (ii) Whether declaration made|permission|licence obtained under sections 40, 43 or 44 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and if so the particulars.
- (5) Particulars of certificate of ownership.
- (6) Identification mark, if any.
- (7) Premises in which intended to be kept.
- (8) Purpose for which to be acquired|received|kept in control|custody|possession.
- (9) If to be put under process of taxidermy or to make animal articles—
 - (a) Number of the trophies/articles to be made.
 - (b) Description of such trophies/articles.
 - (c) To whom they will be returned.
 - (d) Probable date within which they will be so returned.

3. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the information furnished herein is true and complete.

Signature of the applicant.

Strike out whichever is not applicable.

FORM II

[See sub-rule (5) of rule 3]

Permission to acquire, receive, keep in control, custody or possession specified animal or animal article etc. or put under process of taxidermy or make animal articles.

Shri. holding licence No. granted under section 44 (4) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), is hereby permitted to acquire, to keep under his control|custody|possession specified animal|animal article|trophy|uncured|trophy|meat derived from specified animal, if the following description, or put under process of taxidermy of make animal article containing part or whole of such animal :

- (1) Species of animal.
- (2) Description (including sex, if given in the application).
- (3) Number.
- (4) Source from which to be obtained.
- (5) Licence|Permission Number of the source from which to be obtained.
- (6) Particulars of certificate of ownership.
- (7) Identification mark, if any.
- (8) Premises in which to be kept.
- (9) Purpose for which permitted to acquire|receive| keep in custody|possession.
- (10) If permitted to put under process of taxidermy or to make animal article—
 - (a) Number of the trophies or articles to be made.
 - (b) Description of such trophies or articles.
 - (c) To whom they should be returned.
 - (d) Probable date within which they would be returned.

Issued by me this day of

Signature of

Designation

Seal :
Place :
Date :

Strike out whichever is not applicable.

FORM III

(See sub-rule (1) of rule 4)

Report of Stocks

To

The

1. Full Name, address and licence number of the licensee.
2. Stock held on the date of report in specified animals.
 - (a) Species and sex.
 - (b) Number.
 - (c) Adult or Juvenile.
 - (d) Premises where kept.
3. Stock held on the date of report in animal articles.
 - (a) Description, including species of animal from which derived.
 - (b) Number.
 - (c) Dimension or weight.
 - (d) Premises where kept.
4. Stock held on the date of report in trophies.
 - (a) Description, including specie of animal from which derived.
 - (b) Number.
 - (c) Dimension or weight.
 - (d) Premises where kept.

5. Stock held on the date of report in uncured trophies.
 (a) Description, including specie of animal from derived.
 (b) Number.
 (c) Dimension or weight.
 (d) Premises where kept.

6. Remarks, if any.

I do hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Place :

Signature of the person making declaration.

Date :

Strike out whichever is not applicable.

FORM IV

[See sub-rule (2) of rule 5]

Application for permission to purchase specified animal, etc.

To

The

Sir,

I/We residing at Taluk District request that I/We may be granted permission to purchase specified animal|animal article|trophy|uncured trophy derived from animal of the following description, from a licensee—

(1) Number and description of—

- (a) specified animal,
- (b) animal article,
- (c) trophy,
- (d) uncured trophy.

(2) Purpose for which the purchase is to be made.

3. I/We hereby declare that to the best of my|our knowledge and belief the information furnished herein is true and complete.

Signature(s) of the the applicant(s).

Place :

Date :

Strike out whichever is not applicable.

FORM V

[See sub-rule (5) of rule 5]

Permission to purchase specified animal, etc.

S/Shri of is/are hereby permitted to purchase specified animal|animal article|trophy|uncured trophy derived from specified animal of the following description from for the purpose of.....

Number and description—

- (a) specified animal,
- (b) animal article,
- (c) trophy,
- (d) uncured trophy.

Issued by me this day of.....

Seal :

Place :

Date :

Signature.....

Designation.....

NOTE: This permission shall be valid upto a period of one month from the date of issue.

Strike out whichever is not applicable.

FORM VI

[See sub-rule (2) of rule 8]

Application for permission to transport specified animal, etc.

To

The

Sir,

I.....residing atTaluk..... District and holding Licence No. granted under section 44(4) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) request that I may be granted permission to transport the following :—

- (1) Species of specified animal or from which the animal article|cured trophy|uncured trophy is derived.
- (2) Number.
- (3) Description (including sex, if possible).
- (4) Identification mark, if any.
- (5) Source of procurement and the Licence|Permission Number.
- (6) Certificate of ownership, if any.
- (7) Mode of Transport.
- (8) Route.
- (9) Period required for transport.
- (10) Destination.

2. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the information furnished herein is true and complete.

Signature of the applicant.

Place :

Date :

Strike out whichever is not applicable.

FORM VII

[See sub-rule (5) of rule 8]

Permission to transport specified animal, etc.

Shri holding Licence No. granted under section 44(4) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) is hereby permitted to transport in the manner prescribed below specified animal|animal article|cured trophy|uncured trophy derived from specified animal, from..... to.....

- (i) Mode of transport.
- (ii) Route.
- (iii) Period allowed for transport.
- (iv) Remarks.

Issued by me this day of.....

Seal :

Place :

Date :

Signature.....

Designation.....

Strike out whichever is not applicable.

[No. F. 1-21/81-FRY(WL)]
 SAMAR SINGH, Jt. Secy.

सं० 326 (अ) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागालैंड वन्य प्राणी (स्टॉक घोषणा) केन्द्रीय नियम, 1982 है।
2. इसका विस्तार संपूर्ण नागालैंड राज्य पर है।
3. ये 15 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होंगे।

2. जान्तव वस्तु आदि के विनिर्माता व्यापारी या चर्म प्रसाधक द्वारा घोषणा-जान्तव वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता या व्यापारी अपने पकड़े गए पशुओं, ट्राफियों का असंसाधित ट्राफियों का प्रत्येक व्यापारी तथा प्रत्येक चर्म प्रसाधक, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त अधिनियम, की धारा 44 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित मुख्य वन्य प्राणी वार्डन की यथास्थिति जान्तव वस्तुओं, पकड़े गए पशुओं, ट्राफियों और असंसाधित ट्राफियों के अपने स्टॉक की जाँच कि यह घोषणा की तारीख को हों, घोषणा नीचे दिए गए प्रकृत में करेगा।

प्रारूप

(नियम 2 देखिए)

घोषणा का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, नागालैंड राज्य।

1. घोषणा करने वाले विनिर्माता/व्यापारी/चर्मसाधक का पूरा नाम और पता।
2. जान्तव वस्तुओं की घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक:—
 - (1) वर्णन, जिसमें उस पशु का, जिससे प्राप्त हुआ, नाम सम्मिलित हो।
 - (2) संख्या
 - (3) बिमा या भार।
 - (4) परिसर जहाँ रखा गया है।
3. पकड़े गए पशुओं की घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक।
 - (1) जाति और लिंग।
 - (2) संख्या
 - (3) व्यस्क या किशोर।
 - (4) परिसर जहाँ रखा गया हो।
4. ट्राफियों का घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक।
 - (1) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो।
 - (2) संख्या।
 - (3) बिमा या भार।
 - (4) परिसर जहाँ रखा गया हो।
5. असंघित ट्राफियों की घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक।
 - (1) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो।
 - (2) संख्या।

13 GI/82—2

(3) बिमा या भार।

(4) परिसर जहाँ रखा गया हो।

6. टिप्पणियाँ यदि कोई हों।

में एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर का यह घोषणा पत्र सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख _____

स्थान _____

[सं० फा० 1-21/81-एफ०आर०आई०(डब्ल्यू०एल०)]

समर सिंह, संयुक्त सचिव

G.S.R. 326(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Nagaland Wild Life (Stock Declaration) Rules, 1982.

2. (2) They shall extend to the whole of the State of Nagaland.

(3) They shall come into force on the 15th day of April, 1982.

2. Declaration by manufacturer or dealer or taxidermist in animal article etc.—Every manufacture of, or dealer in animal article or every dealer in captive animals, trophies or uncured trophies or every taxidermist shall, within fifteen days from the commencement of the Wild Life (Protection) Act, 1972, declare as required by sub-section (2) of Section 44 of the said Act his stocks of animal articles, captive animals, trophies and uncured trophies as the case may be, as on the date of such declaration to the Chief Wild Life Warden in the form given below:—

FORM

(See rule 2)

Form of Declaration

To

The Chief Wild Life Warden, State of Nagaland.

1. Full name and address of the manufacturer[dealer]taxidermist making the declaration.

2. Actual stock held on the date of declaration in animal articles.

(i) Description including name of animal from which derived.

(ii) Number.

(iii) Dimension or Weight.

(iv) Premises where kept.

3. Actual stock held on the date of declaration in captive animals.

(i) Species and sex.

(ii) Number.

(iii) Adult or juvenile.

(iv) Premises where kept.

4. Actual stock held on the date of declaration in trophies.

(i) Description including specie of animal.

(ii) Number.

(iii) Dimension or weight.

(iv) Premises where kept.

6. Remarks if any.

I do hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the person making declaration.

5. Actual stock held on the date of declaration in uncured tropics.

(i) Description including specie of animal.

(ii) Number.

(iii) Dimension or weight.

(iv) Premises where kept.

Date :

Place :

[No. F. 1-21/81-FRY (WL)]

SAMAR SINGH, Joint Secy.